

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
(हिंदी अनुभाग)

फा.सं.4-2/2025(प्रोत्साहन)-हि.अ.

अंसारी नगर, नई दिल्ली-29
दिनांक: ११.०५.२०२५

कार्यालय ज्ञापन

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अधिकारियों/संकाय-सदस्यों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने/ई-ऑफिस सिस्टम पर फाइलों पर हिंदी में टिप्पणियां लिखने पर प्रोत्साहन योजना।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अधिकारियों/संकाय-सदस्यों द्वारा हिंदी में डिक्टेशन देने/ई-ऑफिस सिस्टम पर फाइलों में हिंदी में टिप्पणियां लिखने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू है जिसे वर्ष 2025-2026 के लिए संस्थान में, एतद्वारा, परिचालित किया जाता है। इस प्रोत्साहन योजना का विवरण निम्न प्रकार है:-

पात्रता

संस्थान में कार्यरत समूह 'क' के तहत सभी अधिकारी/संकाय-सदस्यगण इस योजना में भाग ले सकते हैं जो अपने सरकारी कामकाज के दौरान पूर्णतः अथवा कुछ हद तक हिंदी में डिक्टेशन देते हैं/ई-ऑफिस सिस्टम पर फाइलों पर हिंदी में टिप्पणियां लिखते हैं। केवल वहीं संकाय-सदस्यगण/अधिकारीगण पुरस्कार के पात्र होंगे जो वर्ष में कम से कम 10 हजार शब्द डिक्टेशन देंगे या ई-ऑफिस सिस्टम पर फाइलों पर हिंदी में टिप्पणियों के 10 हजार शब्द लिखेंगे।

पुरस्कार वर्ष:-

इस योजना की अवधि 01 अप्रैल, 2025 से प्रारम्भ होकर 31 मार्च, 2026 तक लागू मानी जाएगी।

पुरस्कारों की संख्या:-

इस प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत निम्नानुसार पुरस्कार होंगे:-

(क) हिंदी भाषी अधिकारियों/संकाय-सदस्यों हेतु

प्रथम पुरस्कार (एक)	₹25,000/-
द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹20,000/-
तृतीय पुरस्कार (एक)	₹15,000/-
प्रोत्साहन पुरस्कार (पांच)	₹10,000/- प्रति पुरस्कार

(ख) अधिकारियों/संकाय-सदस्यों हेतु (जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है)

प्रथम पुरस्कार (एक)	₹25,000/-
द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹20,000/-
तृतीय पुरस्कार (एक)	₹15,000/-
प्रोत्साहन पुरस्कार (पांच)	₹10,000/- प्रति पुरस्कार

इसके अतिरिक्त अन्य भाषा-भाषी वर्ग में यदि कोई प्रोत्साहन पुरस्कार शेष बचता है तो उसे हिंदी भाषी वर्ग के पुरस्कारों में सम्मिलित कर दिया जाएगा।

हिंदी डिक्टेशन/टिप्पणियों की मात्रा

इस योजना के तहत पुरस्कार के लिए हिंदी डिक्टेशन शब्दों/ई-ऑफिस सिस्टम के तहत फाइलों पर हिंदी में लिखी जाने वाली टिप्पणियों के शब्दों की न्यूनतम सीमा 10 हजार शब्द होगी। तथापि, पुरस्कारों का निर्धारण समुचित मात्रा में हिंदी शब्दों के डिक्टेशन/ई-ऑफिस सिस्टम के तहत फाइलों पर हिंदी में लिखी जाने वाली टिप्पणियों के शब्दों एवं गुणवत्ता के आधार पर किया जाएगा। हिंदी में दिए गए डिक्टेशन/टिप्पणी आदि का संबंधित अधिकारी/संकाय-सदस्य को स्वयं अथवा अपने निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक/सहायक के मार्फत संलग्न प्रोफार्मा में रिकॉर्ड रखना होगा जिसे प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति पर निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर अपने सम्बद्ध विभाग/अनुभाग अध्यक्ष/केन्द्र प्रमुख के माध्यम से हिंदी अनुभाग को मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करना होगा।

मूल्यांकन समिति

इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार निर्धारित करने के लिए डिक्टेशन कार्य/ई-ऑफिस सिस्टम के तहत फाइलों पर हिंदी में लिखी जाने वाली टिप्पणियों के मूल्यांकन हेतु किसी उच्च अधिकारी/संकाय-सदस्य की अध्यक्षता में एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में अध्यक्ष के अलावा वरिष्ठ हिंदी अधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण को सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है।

सभी अनुभागों/विभागों/केन्द्रों में कार्यरत अधिकारियों/संकाय-सदस्यों से अनुरोध है कि वे हिंदी में अधिक से अधिक डिक्टेशन देते हुए/ई-ऑफिस सिस्टम के तहत फाइलों पर टिप्पणियां हिंदी में लिखते हुए इस योजना में भाग लेकर संस्थान में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने में अपना भरपूर सहयोग दें।

इसे निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(दिव्या यानामदाला)

वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं
राजभाषा अधिकारी

वितरण:

- | | | | |
|---|----------------------------|---|--|
| 1 | सभी केन्द्र-प्रमुखगण | } | कृपया इस पुरस्कार योजना की सूचना अधीनस्थ अधिकारियों/संकाय-सदस्यों की जानकारी में ला दें। |
| 2 | सभी विभाग/अनुभाग-अध्यक्षगण | | |
| 3 | मुख्य प्रशासन अधिकारी | | |
| 4 | वित्त सलाहकार | | |
| 5 | अधीक्षण अभियंता | | |
| 6 | कुल-सचिव | | |

प्रतिलिपि

- निदेशक/संकायाध्यक्ष(शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा)/चिकित्सा अधीक्षक महोदय के निजी सचिव।
- अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय के प्रधान निजी सचिव
- वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी/उप-सचिव महोदय के निजी सचिव।
- प्रभारी आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) - इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में अधिकारियों/संकाय-सदस्यों के लिए हिंदी में डिक्टेशन देने/ई-ऑफिस सिस्टम पर फाइलों पर हिंदी में टिप्पणियां लिखने संबंधी रिकॉर्ड रखने हेतु प्रोफार्मा।

अधिकारी/संकाय का नाम एवं पदनामः

संबंधित अधिकारी/संकाय
के मोहर सहित हस्ताक्षर

सत्यापन एवं अग्रेषित करने वाले संबद्ध प्राधिकारी
के मोहर सहित हस्ताक्षर

वरिष्ठ हिंदी अधिकारी (का.)
हिंदी अनुभाग, अ.भा.आ.सं.